



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

सदरपुर में हुई घटना का अनावरण, शातिर गिरफ्तार

दिनांक 20.02.2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद में लूट/चोरी/नकबजनी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए टीम का गठन कर घटनाओं को रोकने व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त दिये गये निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद के नेतृत्व में गठित थाना सदरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.02.2021 को हुई लूट की घटना का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त धनीराम पुत्र चेताराम पासी नि० ग्राम बेहटा थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके पास से घटना से सम्बन्धित 1100/- रुपये नगद, एक अदद सिम, दो अदद आधार कार्ड व एक अदद मोबाइल व घटना मे प्रयुक्त एक मोटर साईकिल नं० UP34AA/1069 बरामद किया गया है। अभियुक्त शातिर पेशेवर अपराधी है। जिसके विरुद्ध थाना सदरपुर के अतिरिक्त थाना महमूदाबाद पर भी चोरी एवम् नकबजनी जैसे अभियोग पंजीकृत है। आवश्यक विधिक कार्यवाही पश्चात अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार निरंतर प्रभावी कार्यवाही चलती रहेगी।

अनावरित अभियोग:-मु०अ०सं० 0038/2021 धारा 392/411 भादवि थाना सदरपुर, सीतापुर

अभियुक्त का नाम व पता:-धनीराम पुत्र चेताराम पासी नि० ग्राम बेहटा थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर

बरामदगी- 1100/- रुपये नगद , एक अदद सिम व दो अदद आधार कार्ड, एक अदद मोबाइल व घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल नं० UP34AA/1069 बरामद

पुलिस टीम

1. निरीक्षक अपराध श्री पंकज कुमार त्यागी
2. उ०नि० श्री अजय कुमार सिंह
3. आरक्षी रावेन्द्र पटेल

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 230/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना महमूदाबाद सीतापुर
2. मु0अ0सं0184/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना महमूदाबाद सीतापुर
3. मु0अ0सं0 0038/2021 धारा 392/411 भादवि थाना सदरपुर, सीतापुर

